

वर्ष 2018-2019 के बजट अनुमान पर

वित्त सचिव का स्मृति पत्र

बजट का सार :- निम्नलिखित विवरण वर्ष 2016-17 के लेखे, वर्ष 2017-18 का बजट अनुमान तथा पुनरीक्षित अनुमान और वर्ष 2018-19 का बजट अनुमान दर्शाता है । वर्ष 2017-18 से आयोजना एवं आयोजनेतर व्यय के विलय के फलस्वरूप इन मदों में राशि नहीं दर्शायी गयी है ।

(जब तक अन्यथा उल्लेख न हो, आंकड़े करोड़ ₹ में)

क्रमांक	शीर्ष	2016-2017 लेखा	2017-2018 बजट अनुमान	2017-2018 पुनरीक्षित अनुमान	2018-2019 बजट अनुमान
I	राजस्व प्राप्तियां (क+ख)	53685.25	66093.80	68580.04	72867.97
क.	राज्य का राजस्व	24614.46	31124.84	32153.04	34200.00
	1 कर राजस्व	18945.21	23420.64	24438.04	26030.00
	2 कर भिन्न राजस्व	5669.25	7704.20	7715.00	8170.00
ख.	केन्द्र से प्राप्तियाँ	29070.79	34968.96	36427.00	38667.97
	3 केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा	18809.16	20867.96	21280.00	22954.97
	4 सहायक अनुदान	10261.63	14101.00	15147.00	15713.00
II	पूंजीगत प्राप्तियां (5+6+7+8)	5140.13	9858.31	9947.13	10228.16
	5 उधार एवं अग्रिम की वसूली	173.37	291.18	305.00	314.02
	6 विविध पूंजीगत प्राप्तियां	2.37	0.00	0.00	0.00
	7 शुद्ध लोक ऋण	4327.30	9067.13	9067.13	9314.14
	8 लोक लेखों से शुद्ध प्राप्तियां	637.09	500.00	575.00	600.00
III	कुल प्राप्तियां (I+II)	58825.38	75952.11	78527.17	83096.13
IV	आयोजनेतर व्यय (9+11+12+13)	24010.85	-	-	-
	9 राजस्व व्यय (ब्याज भुगतान सम्मिलित)	23911.70	-	-	-
	10 ब्याज भुगतान	2686.83	-	-	-
	11 पूंजीगत व्यय	38.71	-	-	-
	12 ऋण एवं अग्रिम	60.44	-	-	-
	13 आकस्मिकता निधि में विनियोजन	0.00	-	-	-

V	आयोजना व्यय (14+15+16)	33957.41	76031.62	78622.98	83179.26
	14 राजस्व व्यय	24252.90	61312.83	65392.10	68422.62
	15 पूंजीगत व्यय	9431.80	14453.83	12735.42	14453.93
	16 ऋण एवं अग्रिम	272.71	264.96	495.46	302.71
VI	कुल व्यय (IV+V)	57968.26	76031.62	78622.98	83179.26
VII	राजस्व व्यय (9+14)	48164.60	61312.83	65392.10	68422.62
VIII	पूंजीगत व्यय (11+15)	9470.51	14453.83	12735.42	14453.93
IX	ऋण एवं अग्रिम (12+16)	333.15	264.96	495.46	302.71
X	आकस्मिकता निधि मे विनियोजन	0.00	0.00	60.00	0.00
XI	ब्याज भुगतान (राजस्व व्यय में सम्मिलित)	2686.83	3022.68	3257.80	3747.45
XII	राजस्व आधिक्य/घाटा (I-VII)	5520.65	4780.97	3187.94	4445.35
XIII	राजकोषीय (वित्तीय) घाटा (I+5+6)- VI	-4107.27	-9646.64	-9737.94	-9997.27
XIV	प्राथमिक घाटा (XIII-XI)	-1420.44	-6623.96	-6480.14	-6249.82

2. सामान्य स्थिति का संक्षेप -

विवरण	2016-2017 लेखा	2017-2018 बजट अनुमान	2017-2018 पुनरीक्षित अनुमान	2018-2019 बजट अनुमान
क. प्रारंभिक शेष	-577.94	-656.56	339.18	243.37
ख. संचित निधि				
एक. राजस्व प्राप्तियां				
(क) कर राजस्व	37754.37	44288.60	45718.04	48984.97
(ख) कर भिन्न राजस्व	5669.25	7704.20	7715.00	8170.00
(ग) केन्द्र से सहायक अनुदान	10261.63	14101.00	15147.00	15713.00
योग - एक	53685.25	66093.80	68580.04	72867.97
दो. राजस्व व्यय				
(क) आयोजना	24252.90	61312.83	65392.10	68422.62
(ख) आयोजनेतर	23911.70	-	-	-
योग - दो	48164.60	61312.83	65392.10	68422.62
आधिक्य(+)/घाटा (-)	5520.65	4780.97	3187.94	4445.35
तीन. पूंजीगत प्राप्तियां	2.37	0.00	0.00	0.00
चार. पूंजी व्यय				
(क) आयोजना	9431.80	14453.83	12735.42	14453.93
(ख) आयोजनेतर	38.71	-	-	-
योग - चार	9470.51	14453.83	12735.42	14453.93
पांच. लोक ऋण				
(क) प्राप्तियां	5479.93	10984.51	10984.51	11377.51
(ख) संवितरण	1152.63	1917.38	1917.38	2063.37
योग - पांच (शुद्ध)	4327.30	9067.13	9067.13	9314.14

छ: - ऋण तथा अग्रिम

(क) प्राप्तियां	173.37	291.18	305.00	314.02
(ख) संवितरण				
(एक) आयोजना	272.71	264.96	495.46	302.71
(दो) आयोजनेतर	60.44	-	-	-
योग	333.15	264.96	495.46	302.71
योग - छ: (शुद्ध)	-159.78	26.22	-190.46	11.31
सात. आकस्मिकता निधि मे विनियोजन	0.00	0.00	0.00	0.00
शुद्ध संचित निधि	220.03	-579.51	-670.81	-683.13
ग. आकस्मिकता निधि (शुद्ध)	60.00	0.00	0.00	0.00
घ. लोक लेखा				
(क) प्राप्तियां	131234.49	112516.19	126041.21	135475.76
(ख) संवितरण	130597.40	112016.19	125466.21	134875.76
योग घ (शुद्ध)	637.09	500.00	575.00	600.00
वर्ष के शुद्ध लेन देन	917.12	-79.51	-95.81	-83.13
ड. अंतिम शेष	339.18	-736.07	243.37	160.24

3. राजस्व प्राप्तियाँ -

विवरण	2016-2017	2017-2018	2017-2018	2018-2019
	लेखा	बजट अनुमान	पुनरीक्षित अनुमान	बजट अनुमान
(क) राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ -				
(i) कर राजस्व	18945.21	23420.64	24438.04	26030.00
(ii) कर भिन्न राजस्व	5669.25	7704.20	7715.00	8170.00
योग (क)	24614.46	31124.84	32153.04	34200.00
(ख) केन्द्र से प्राप्त राजस्व -				
(i) केन्द्रीय करों का हिस्सा	18809.16	20867.96	21280.00	22954.97
(ii) केन्द्र से सहायक अनुदान	10261.63	14101.00	15147.00	15713.00
- आयोजना भिन्न अनुदान	1700.03	-	-	-
- राज्यों की आयोजनागत योजनाओं के लिए अनुदान	7785.03	-	-	-
- केन्द्रीय क्षेत्रीय योजनाओं के लिए अनुदान	64.59	-	-	-
- केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के लिए अनुदान	398.59	-	-	-
- केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजनाएँ	-	12069.08	13115.08	13417.79
- वित्त आयोग अनुदान	-	1575.45	1575.45	1793.09
- राज्यों को अन्य अंतरण/अनुदान	313.39	456.47	456.47	502.12
योग (ख)	29070.79	34968.96	36427.00	38667.97
कुलयोग	53685.25	66093.80	68580.04	72867.97

(क) बजट अनुमान एवं पुनरीक्षित अनुमान 2017-2018 में भिन्नता के कारण

1. राज्य के कर राजस्व में वृद्धि मुख्यतः आबकारी शुल्क एवं परिवहन से प्राप्त राजस्व में अनुमानित वृद्धि के कारण है ।
2. केन्द्रीय करों में राज्य के हिस्से में वृद्धि केन्द्रीय बजट के पुनरीक्षित अनुमान अनुसार अनुमानित अधिक राशि प्राप्त होने के कारण है ।
3. केन्द्र से सहायता अनुदान में वृद्धि भारत सरकार से केन्द्रीय योजनाओं में अनुमानित अधिक राशि प्राप्त होने के कारण है ।

(ख) पुनरीक्षित अनुमान 2017-2018 तथा बजट अनुमान 2018-2019 में भिन्नता के कारण

1. राज्य के कर राजस्व में वृद्धि मुख्यतः आबकारी शुल्क एवं परिवहन से प्राप्त राजस्व में अनुमानित वृद्धि के कारण है ।
2. करेतर राजस्व में वृद्धि मुख्यतः खनिज से प्राप्त राजस्व में अनुमानित वृद्धि के कारण है ।
3. केन्द्रीय करों में राज्य के हिस्से में वृद्धि केन्द्रीय बजट के बजट अनुमान अनुसार अनुमानित अधिक राशि प्राप्त होने के कारण है ।
4. केन्द्र से सहायता अनुदान में वृद्धि भारत सरकार से केन्द्रीय योजनाओं में अनुमानित अधिक राशि प्राप्त होने के कारण है ।

4. राजस्व व्यय -

विवरण	2016-2017 लेखा	2017-2018 बजट अनुमान	2017-2018 पुनरीक्षित अनुमान	2018-2019 बजट अनुमान
आयोजना	24252.90	61312.83	65392.10	68422.62
आयोजनेतर	23911.70	-	-	-
; kx	48164.60	61312.83	65392.10	68422.62

(क) बजट अनुमान एवं पुनरीक्षित अनुमान 2017-2018 में भिन्नता के कारण

बजट अनुमान की तुलना में पुनरीक्षित अनुमान में वृद्धि 6.65 प्रतिशत की है ।

(ख) पुनरीक्षित अनुमान 2017-2018 तथा बजट अनुमान 2018-2019 में भिन्नता के कारण

पुनरीक्षित अनुमान 2017-2018 से बजट अनुमान 2018-2019 में वृद्धि का प्रतिशत 4.63 है ।

5. पूंजीगत व्यय -

विवरण	2016-2017 लेखा	2017-2018 बजट अनुमान	2017-2018 पुनरीक्षित अनुमान	2018-2019 बजट अनुमान
आयोजना	9431.80	14453.83	12735.42	14453.93
आयोजनेतर	38.71	-	-	-
; kx	9470.51	14453.83	12735.42	14453.93

(क) बजट अनुमान एवं पुनरीक्षित अनुमान 2017-2018 में भिन्नता के कारण

बजट अनुमान की तुलना में पुनरीक्षित अनुमान में पूंजीगत व्यय में कमी का मुख्य कारण कार्य विभागों में अनुमानित पूंजीगत व्यय में कमी होना है ।

(ख) पुनरीक्षित अनुमान 2017-2018 तथा बजट अनुमान 2018-2019 में भिन्नता के कारण

पूंजीगत व्यय के पुनरीक्षित अनुमान 2017-2018 तथा बजट अनुमान 2018-2019 में वृद्धि का प्रतिशत 13.49 है । यह मुख्यतः राज्य की अधोसंरचनात्मक परियोजनाओं में अनुमानित अधिक व्यय के कारण है ।

6. व्यय के महत्वपूर्ण शीर्ष-

विवरण	2016-2017	2017-2018	2017-2018	2018-2019
	लेखा	बजट अनुमान	पुनरीक्षित अनुमान	बजट अनुमान
1 वेतन, भत्ते आदि	10865.09	14624.90	14681.52	15644.06
2 मजदूरी	558.65	712.27	714.17	799.89
3 कार्यालय व्यय	517.14	816.26	821.89	827.14
4 छात्रवृत्तियाँ, वृत्तियाँ एवं अन्य हितलाभ	746.00	913.97	971.43	979.95
5 पेंशन	3459.19	5189.57	4027.57	5335.07
6 आर्थिक सहायता	4189.14	6107.71	6659.08	5988.83
7 सहायक अनुदान	19011.08	22930.95	27800.46	26772.58
8 अनुरक्षण	572.06	824.60	824.78	1295.90
9 सामग्री और पूर्तियाँ	1936.22	2304.07	2340.57	2368.11
10 वृहद निर्माण कार्य	2972.76	4454.35	3985.68	4538.62
11 लघु निर्माण कार्य	751.05	1009.90	1040.14	1181.52
12 मशीन और उपकरण	143.36	316.97	324.43	362.86
13 धनवेष्ठन	603.02	438.41	130.19	330.92
14 ब्याज अदायगी	2686.83	3022.68	3257.80	3747.45
15 ऋण तथा अग्रिम	272.71	365.47	516.89	413.98
16 निर्माण कार्य	4107.87	7313.82	5538.23	6314.23
17 अन्य	7078.65	9613.38	10015.05	10562.23

7. लोक ऋण -

विवरण	2016-2017 लेखा	2017-2018 बजट अनुमान	2017-2018 पुनरीक्षित अनुमान	2018-2019 बजट अनुमान
प्राप्तियां				
(क) राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण -				
- बाजार ऋण	4200.00	7800.00	8100.00	8193.00
- नाबार्ड से उधार	898.02	1650.00	1350.00	1650.00
- क्षतिपूर्ति और अन्य बाण्ड	0.00	0.00	0.00	0.00
- राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं से उधार	0.38	10.00	10.00	10.00
- भारतीय रिजर्व बैंक से अर्धोपाय अग्रिम	0.00	924.51	924.51	924.51
- राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी राज्य प्रतिभूतियां	0.00	0.00	0.00	0.00
योग (क)	5098.40	10384.51	10384.51	10777.51
(ख) केन्द्रीय सरकार से उधार और अग्रिम -				
- आयोजना भिन्न उधार	0.00	-	-	-
- राज्यों की आयोजनागत योजनाओं के लिये उधार	381.53	-	-	-
- केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के लिये उधार	0.00	-	-	-
- राज्यों की योजनाओं के लिये कर्जे	0.00	600.00	600.00	600.00
योग (ख)	381.53	600.00	600.00	600.00
योग (क+ख)	5479.93	10984.51	10984.51	11377.51

संवितरण

विवरण	2016-2017 लेखा	2017-2018 बजट अनुमान	2017-2018 पुनरीक्षित अनुमान	2018-2019 बजट अनुमान
(क) राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण -				
- बाजार ऋण	302.32	0.00	0.00	0.00
- भारतीय जीवन बीमा निगम से उधार	0.00	5.00	5.00	5.00
- भारतीय साधारण बीमा निगम से उधार	0.40	0.38	0.38	0.37
- नाबार्ड से उधार	259.28	396.06	396.06	516.93
- राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से उधार	0.14	0.10	0.10	0.17
- राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी राज्य	420.53	430.00	430.00	455.00
- भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम	0.00	924.51	924.51	924.51
योग (क)	982.67	1756.05	1756.05	1901.98
(ख) केन्द्रीय सरकार से उधार और अग्रिम -				
- आयोजना - भिन्न उधार	0.53	0.53	0.53	0.53
- राज्यों की आयोजनागत योजनाओं के लिये उधार	169.43	160.8	160.8	160.86
योग (ख)	169.96	161.33	161.33	161.39
योग (क+ख)	1152.63	1917.38	1917.38	2063.37
शुद्ध	4327.30	9067.13	9067.13	9314.14

(क) पुनरीक्षित अनुमान 2017-2018 तथा बजट अनुमान 2018-19 में भिन्नता के कारण

पुनरीक्षित अनुमान 2017-18 की तुलना में बजट अनुमान 2018-19 में लोक ऋण प्राप्तियों में वृद्धि मुख्यतः विभिन्न अधोसंरचनात्मक विकास कार्यों हेतु बाजार ऋण एवं नाबार्ड से अधिक ऋण प्राप्ति का अनुमान किये जाने के कारण है।

8. राज्य शासन द्वारा ऋण एवं अग्रिम -

विवरण	2016-2017 लेखा	2017-2018 बजट अनुमान	2017-2018 पुनरीक्षित अनुमान	2018-2019 बजट अनुमान
प्राप्तियां	173.37	291.18	305.00	314.02
संवितरण				
आयोजना	272.71	264.96	495.46	302.71
आयोजनेतर	60.44	-	-	-
; kx	333.15	264.96	495.46	302.71

9. लोक लेखा

विवरण	2016-2017 लेखा	2017-2018 बजट अनुमान	2017-2018 पुनरीक्षित अनुमान	2018-2019 बजट अनुमान
शुद्ध प्राप्तियां	637.09	500.00	575.00	600.00

10. अन्तिम शेष -

विवरण	2015-2016 लेखा	2016-2017 बजट अनुमान	2016-2017 पुनरीक्षित अनुमान	2017-2018 बजट अनुमान
अन्तिम शेष	339.18	-736.07	243.37	160.24

11. 2018-2019 में लेखे के विभिन्न क्षेत्रों के अधीन लेन-देनों के विस्तृत ब्योरे -

विवरण	प्राप्तियां	भुगतान	अंतर
राजस्व	72867.97	68422.62	4445.35
पूंजी	0.00	14453.93	-14453.93
लोक ऋण	11377.51	2063.37	9314.14
ऋण तथा अग्रिम	314.02	302.71	11.31
लोक लेखा	135475.76	134875.76	600.00
वर्ष का कुल लेन देन	220035.26	220118.39	-83.13
प्रारंभिक शेष			243.37
अंतिम शेष			160.24

12. विकास के विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत विभिन्न स्रोतों से पोषित व्यय का संक्षिप्त विवरण

विवरण	2017-2018	2017-2018	2018-2019
	बजट अनुमान	पुनरीक्षित अनुमान	बजट अनुमान
1. सामान्य क्षेत्र	21470.22	22629.16	24107.60
2. अनुसूचित जनजाति उपयोजना	14439.61	14634.14	15120.37
3. अनुसूचित जाति उपयोजना	4737.75	4939.45	5524.65
4. अनुसूचित जनजाति उपयोजना के लिये अलावा राशियां	230.00	252.09	230.00
5. अनुसूचित जाति उपयोजना लिये अलावा राशियां	40.00	40.00	40.00
6. राज्य एवं रक्षित निधियों से पोषित योजनाओं का योग	40917.57	42494.84	45022.62
7. रक्षित निधियों से पोषित योजनायें	1947.08	1573.85	1362.22
8. राज्य के स्रोतों से पोषित योजना	42864.65	44068.69	46384.84
9. केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं	9319.53	9726.74	9430.13
10. केन्द्र क्षेत्रीय योजनाएं	399.44	383.81	319.99
11. निगम प्रवर्तित योजनाएं	0	0	0
12. विकास शीर्षों के अंतर्गत समस्त योजनाओं का वृहद् योग	52583.62	54179.24	56134.96

13. व्यय हेतु संसाधन

विवरण	2017-2018 बजट अनुमान	2017-2018 पुनरीक्षित अनुमान	2018-2019 बजट अनुमान
एक- संसाधन			
राज्य का राजस्व	31124.84	32153.04	34200.00
केन्द्र से प्राप्तियां	34968.96	36427.00	38667.97
उधार एवं अग्रिम की वसूली	291.18	305.00	314.02
विविध पूंजीगत प्राप्तियां	0.00	0.00	0.00
शुद्ध बाजार ऋण	7800.00	8100.00	8193.00
शुद्ध नाबार्ड ऋण	1253.94	953.94	1133.07
अन्य ऋण (शुद्ध)	-425.48	-425.48	-450.54
केन्द्र सरकार से उधार एवं अग्रिम (शुद्ध)	438.67	438.67	438.61
लोक लेखों से शुद्ध प्राप्तियां	500.00	575.00	600.00
योग - एक	75952.11	78527.17	83096.13
दो - कुल व्यय	76031.62	78622.98	83179.26
संसाधनों में कमी / सुधार	-79.51	-95.81	-83.13
प्रारंभिक शेष	-656.56	339.18	243.37
अन्तिम शेष	-736.07	243.37	160.24

14. वर्ष 2018-19 में नवीन व्यय -

क्रमांक	मद	बजट प्रावधान
1.	राजस्व	1600.19
2.	पूंजी	2608.79
	योग	4208.98

15. राज्य शासन की ऋण स्थिति -

मार्च, 2017 की स्थिति में अदेय ऋणो/दायित्वों (Debt & other Interest bearing obligations)* की स्थिति निम्नानुसार है -

क्रमांक	विवरण	ज'क'क
(क)	लोक ऋण	
1.	राज्य सरकार का आंतरिक ऋण	
1.	बाजार से ऋण	18452.11
2.	भारतीय जीवन बीमा निगम से ऋण	20.29
3.	भारतीय सामान्य बीमा निगम से ऋण	2.20
4.	राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक से ऋण	3167.45
5.	क्षतिपूर्ति एवं अन्य बाण्ड	918.53
6.	राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण	7.98
7.	भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम	0.00
8.	केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय अल्प निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	5761.73
	योग (1)	28330.29
2.	केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम	2047.16
	योग (क)	30377.45
(ख)	अल्प बचतें, भविष्य निधियाँ आदि	4592.47
(ग)	आरक्षित निधि	2342.98
(घ)	जमा तथा अग्रिम	6117.96
	योग (क+ख+ग+घ)	43430.86

* वर्ष 2016-17 के वित्त लेखे के अनुसार

16.(अ) म. प्र. राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 52(अ) तथा (ब) के तहत जिन प्रत्याभूतियों का प्रावधिक प्रभाजन किया गया है, उसके अनुसार राज्य शासन के हिस्से की प्रत्याभूति की अदेयता दिसम्बर, 2017 की स्थिति में निम्नानुसार है :-

क्रमांक	विवरण	राशि
1	नगर निगम, नगर पालिकाओं तथा विकास प्राधिकरणों के पक्ष में	0.38
2	छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम (वित्त निगम प्रकोष्ठ)	22.69
3	छत्तीसगढ़ विद्युत कंपनियों	*
4	छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल	*
5	छत्तीसगढ़ दुग्ध महासंघ	0.00
; kx ¼/½		23.07

*पूर्ववर्ती मध्यप्रदेश के विभाजन के फलस्वरूप इस ऋण के विभाजन संबंधी अभिलेख उपलब्ध न होने से ऋण राशि के 31.12.2017 की स्थिति में शेष की जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(ब) राज्य निर्माण के पश्चात् राज्य शासन द्वारा जिन संस्थाओं के पक्ष में प्रत्याभूति दी गई है, उनकी दिसम्बर, 2017 की स्थिति में अदेयता निम्नानुसार है:-

क्रमांक	विवरण	jk'k
1	छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक	0.05
2	लौह पुरुष सरदार बल्लभभाई पटेल शक्कर कारखाना पण्डरिया	91.00
3	नगर निगम, नगर पालिकाओं तथा विकास प्राधिकरणों के पक्ष में	0.24
4	छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अनुसूचित जाति एवं वित्त विकास निगम	0.29
5	छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यवसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम	76.83
6	छत्तीसगढ़ निःशक्तजन वित्त एवं विकास निगम	11.83
7	छत्तीसगढ़ विद्युत कंपनियों	2495.88
8	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, बिलासपुर	1.00
9	छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ	1000.00
10	छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल	800.00
11	छत्तीसगढ़ पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन	88.20
योग (ब)		4565.32
कुल योग (अ+ब)		4588.39

17.(अ) म.प्र. राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 42 के तहत अविभाजित म. प्र. राज्य की आरक्षित निधियां जिनका विनिधान सरकारी लेखे से बाहर किया गया है, का प्रावधिक प्रभाजन किया गया है । इसके अनुसार छत्तीसगढ़ शासन के हिस्से की शासकीय प्रतिभूति (Securities) निम्नानुसार है:-

क्रमांक	विवरण	राशि
1	अकाल राहत निधि विनिवेश लेखा	0.00
2	राजस्व आरक्षित निधि विनिवेश लेखा	0.47
3	कृषि हेतु विकास निधि से विनिवेश लेखा	0.00
4	अन्य निधि विनिवेश लेखा	0.00
5	रोकड़ शेष विनिवेश लेखा	0.00
योग (अ)		0.47
(ब) संचित शोधन निधि (दिनांक 31.12.2017 की स्थिति में राज्य शासन द्वारा निधि में निवेशित राशि)		1846.94
योग (ब)		1846.94
कुल योग (अ+ब)		1847.41

18. छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 में निहित लक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में वर्ष 2018-19 में राज्य की स्थिति इस प्रकार है :-

1. राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 2.97 प्रतिशत अनुमानित किया गया है ।
2. राजस्व आधिक्य सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 1.32 प्रतिशत अनुमानित किया गया है ।
3. ब्याज भुगतान कुल राजस्व प्राप्तियों का 5.14 प्रतिशत अनुमानित किया गया है ।
4. कुल देयतायें सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 18.68 प्रतिशत अनुमानित किया गया है ।
5. वर्ष 2017-18 (दिसम्बर, 2017 की स्थिति में) में राज्य सरकार के अन्य आकस्मिक दायित्व (प्रत्याभूति) सकल घरेलू उत्पाद के 1.36 प्रतिशत है ।

19. बजट अनुमान 2018-2019 में पुनरीक्षित अनुमान 2017-18 की तुलना में राजस्व व्यय में 4.63 प्रतिशत तथा पूंजीगत व्यय में लगभग 13.49 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है । राजस्व व्यय में मुख्यतः वेतन में लगभग 6.56 प्रतिशत की वृद्धि, पेंशन एवं हितलाभ में लगभग 32.46 प्रतिशत, अनुरक्षण में 57 प्रतिशत तथा ब्याज में 15 प्रतिशत की वृद्धि है, जो मुख्यतः इन मदों में अनुमानित अतिरिक्त व्यय के कारण है । सामान्य क्षेत्र में 15.68 प्रतिशत वृद्धि, सामाजिक क्षेत्र में 1 प्रतिशत कमी तथा आर्थिक क्षेत्र में 10 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान किया गया है ।

20. विकास के विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत रखे गये प्रावधानों के विवरण के लिए आवश्यक परिशिष्ट संलग्न किये गये हैं ।

jk; ij
10 Qjoj 2018

¼ vferkHk t& ½
foRr l fpo
NRrhl x<+ 'kkl u

परिशिष्ट - क
अर्थोपाय अनुमान 2018-2019

(₹ करोड़ में)

विवरण	2016-2017 लेखा	2017-2018 बजट अनुमान	2017-2018 पुनरीक्षित अनुमान	2018-2019 बजट अनुमान
प्रारंभिक शेष	-577.94	-656.56	339.18	243.37
वर्ष के लेन देन				
राजस्व आधिक्य / कमी	5520.65	4780.97	3187.94	4445.35
पूंजी व्यय	9470.51	14453.83	12735.42	14453.93
लोक ऋण (शुद्ध)	4327.30	9067.13	9067.13	9314.14
राज्य शासन द्वारा ऋण (शुद्ध)	-159.78	26.22	-190.46	11.31
आकस्मिकता निधि (शुद्ध)	0.00	0.00	0.00	0.00
लोक लेखा (शुद्ध)				
अल्प बचतें, भविष्य निधि, आदि	426.97	350.00	417.00	431.43
आरक्षित निधियां	384.80	137.49	142.49	152.06
जमा और अग्रिम	550.68	31.01	34.01	35.01
उचन्त और विविध	-774.49	-18.50	-18.50	-18.50
प्रेषण	49.14	0.00	0.00	0.00
	637.10	500.00	575.00	600.00
वर्ष के शुद्ध लेन देन	917.12	-79.51	-95.81	-83.13
अन्तिम शेष	339.18	-736.07	243.37	160.24